



71

**UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY,
HALDWANI, NAINITAL**

The report should be sent (in the sealed envelope) to the Exam Controller, Uttarakhand Open University, Teen pani Bypass Road, Haldwani (Nainital) -263 139.

UOU/Research/Sanskrit/23/03

DATE: 14.03.2023

PROFORMA FOR THE WRITING Ph. D. THESIS REPORT

- 5- Name of the Candidate Sri Rakesh Chandra Gurwant, Registration No. 12025602
- 6- Subject: Sanskrit
- 7- Name of the Doctorate Degree: Ph. D.
- 8- Title of thesis : “ श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश एवं द्वादश स्कन्धों का सांस्कृतिक अनुशीलन ”
5. Name of the examiner with full postal address Professor Brajesh Kumar Pandey, The School of Sanskrit and Indic Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067

Note – Under the ordinance relating to Doctorate Degree a thesis shall comply with the following conditions and the examiners are requested that in case they approve of a thesis for the degree, it should be definitely mentioned in the report that the thesis complies with these requirements.

- (c) It must be a piece of research work characterized either by the discovery of facts or by a fresh approach towards the interpretation of facts or theories. In either case it should evince the candidate's capacity for critical examination and sound judgment.
- (d) It shall be satisfactory in point of language and presentation of subject matter. The examiners will also indicate whether the thesis is suitable for publication in its present form with or without amendments.

IMPORTANT

The Examiner is requested to recommend definitely whether.

- (d) The candidate is admitted to the degree.
Or
 (e) The candidate should improve and resubmit the thesis.
Or
 (f) The thesis should be rejected.

REPORT

उपर्युक्त शोध प्रबन्ध का आसपास परीक्षण किया। शोधार्थी श्री राकेशचन्द्र गुणवंत ने शोधप्रबन्ध का सम्पूर्ण परिपालन करते हुए प्राथमिक एवं पूरक सामग्रियों का प्रयास प्रयोग किया है। शोधसामग्री के संयोजन एवं संकलन में शोधार्थी का प्रयत्न प्रामाण्यपूर्ण है।

Dated 01/05/2023

(Signature of the Examiner)

(If necessary blank sheets may be added to complete the report)

Revu 25/05/23

25-05-23

20/05/2023

Tiwari 25/05/2023

(10)

परिलक्षित होता है। वः अध्यायों में विभिन्न शोध प्रकल्प का प्रथम अध्याय पुराणों के लक्षण, परिचय एवं उनके सांस्कृतिक वैशिष्ट्य पर आधारित है। द्वितीय अध्याय में श्रीमद्भागवत में वर्णित विविध पक्षों का निरूपण है। तृतीय अध्याय प्रणव, पञ्च-महाभूत एवं पुरुषार्थ चतुष्टय पर केन्द्रित है जो चतुर्थ अध्याय में षाडश स्कन्ध में आत्मनः धर्म तत्त्वा निरलेखण है। पञ्चम अध्याय अध्यात्म एवं मूल्य निरूपण करता है। अंतिम षष्ठ अध्याय शोधनिष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

श्रीमद्भागवत महापुराण बहुप्रसिद्ध, सर्वलोकस्वीकार्य एवं सार्वकालिक ग्रंथ है जिसपर अनेक शोधकार्यों की पंक्ति उपलब्ध है। आलोच्य शोधग्रंथ षाडश एवं षाडश स्कन्धों का सांस्कृतिक अनुशीलन प्रस्तुत करता है। शोधार्थी + तन्निर्णयक शोधकार्य संपन्न किया है जिसमें इसकी शोध दृष्टि परिलक्षित होती है। शोधग्रंथ संस्करण अमुठियों के परिमार्जन पुरस्कार प्रकाशन योग्य है।

परीक्षणोपरान्त मैं शोधार्थी श्री राकेशचन्द्र गुणवत्त को पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की इद संस्तुति करता हूँ।

Revu 25/05/23

(RS) 25/05/23

Dr. Ramesh Chandra Pandey
 Director
 Institute of
 Sanskrit Studies
 Jammu



UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY,
HALDWANI, NAINITAL

The report should be sent (in the sealed envelope) to the Exam Controller, Uttarakhand Open University, Teen pani Bypass Road, Haldwani (Nainital) -263 139.

DATE: 14.03.2023

UOU/Research/Sanskrit/23/03

PROFORMA FOR THE WRITING Ph. D. THESIS REPORT

- 1- Name of the Candidate Sri Rakesh Chandra Gurwant, Registration No. 12025602
- 2- Subject: Sanskrit
- 3- Name of the Doctorate Degree: Ph. D.
- 4- Title of thesis : " श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश एवं द्वादश स्कन्धों का सांस्कृतिक अनुशीलन "
5. Name of the examiner with full postal address Professor Kamla Chauhan, HNB Garhwal Universit Srinagar, 249161

Note – Under the ordinance relating to Doctorate Degree a thesis shall comply with the following conditions and the examiners are requested that in case they approve of a thesis for the degree, is should be definitely mentioned in the report that the thesis complies with these requirements.

- (a) It must be a piece of research work characterized either by the discovery of facts or by a fresh approach towards the interpretation of facts or theories. In either case it should evince the candidate's capacity for critical examination and sound judgment.
- (b) It shall be satisfactory in point of language and presentation of subject matter. The examiners will also indicate whether the thesis is suitable for publication in its present form with or without amendments.

IMPORTANT

The Examiner is requested to recommend definitely weather.

- (a) The candidate is admitted to the degree.
Or
- (b) The candidate should improve and resubmit the thesis.
Or
- (c) The thesis should be rejected.

REPORT

शोध-छात्र रकेश चन्द्र गुणवन्त द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल मानविकी विद्याशाखा के संस्कृत विषय में पी-एच.डी.उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध "श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश एवं द्वादश स्कन्धों का सांस्कृतिक अनुशीलन" शोधार्थी द्वारा किया गया निम्नलिखित मौलिक कार्य है। शोधार्थी ने अपने सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध को छः अध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम अध्याय में विभिन्न पुराणों का परिचय एवं पुराण के स्वरूप पर चर्चा की गयी है। द्वितीय अध्याय में स्कन्धद्वय में योगतत्त्व की विशद व्याख्या, तृतीय अध्याय में वर्णश्रम धर्म

Dated 24/03/2023

(Signature of the Examiner)

(If necessary blank sheets may be added to complete the report)

25/05/23

25/05/23

25-05-23

25/05/23

25/5/23

से सम्बन्धित तत्त्वों की समीक्षा, चतुर्थ अध्याय में धर्म तत्त्व, पञ्चम में अध्यात्म तत्त्व का श्रीमद्भागवत पुराण के आधार पर विवेचन करते हुए षष्ठ अध्याय में शोध-विषय के निष्कर्षों का साररूप में उपस्थापित किया गया है। शोध-प्रबन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप शोध पत्र एवं शोध-संगोष्ठी का प्रमाणपत्र भी शोधार्थी द्वारा लगाया गया है। शोधार्थी का शोध-प्रबन्ध प्रकाशन योग्य है।

अतः मैं शोधार्थी रमेश चन्द्र गुणवन्त के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शोधार्थी को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. उपाधि प्रदान किये जाने की सबल संस्तुति प्रदान करती हूँ।

प्र. भा. ए. व.
29-3-2023

Remu 25/05/23